

प्रेस नोट

दिनांक 22.10.20

अंतर्राज्यीय 04 शातिर लुटेरे बदमाश पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री दिनेश कुमार पी0 महोदय के कुशल निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी टहरौली के सतत् पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बरुआसागर, टहरौली, सर्विलांस सेल एवं स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान 03 घायल सहित कुल 04 अंतर्राज्यीय शातिर लुटेरे बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।

➤ संक्षिप्त विवरण-

बरुआसागर थाना क्षेत्र में विगत माह में गल्ला व्यवसाई के साथ हुई लाखों रुपए की लूट की घटना के अनावरण में क्षेत्राधिकारी टहरौली के पर्यवेक्षण में थाना बरुआसागर, टहरौली, स्वाट टीम तथा सर्विलांस सेल को मु.अ.सं.194/20 धारा 392 भादवि के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा लूट के माल की बरामदगी हेतु लगाया गया था इसी क्रम में आज दिनांक 22.10.2020 को समय करीब 13:20 बजे नोट घाट के पास बरुआसागर थाना क्षेत्र में लुटेरे गैंग के चार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई असलहों से लैस बदमाशों को रोका गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की गयी, जवाबी फायरिंग में तीन बदमाशों के घायल सहित कुल 04 बदमाशों को पकड़ा गया है। घायलों को अस्पताल खाना करते हुए पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। मौके पर बदमाशों के द्वारा इस घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल, एक अदद सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 3 तमंचे भारी मात्रा में कारतूस सहित लूटे गए रुपयों में से रु 50000 मौके से बरामद हुए हैं।

घायल एवं पकड़े गए बदमाशों की पहचान-

1. संजी उर्फ संजीव चतुर्वेदी पुत्र केशवदास निवासी विजयपुर थाना पूराकला जिला ललितपुर उ0प्र0 उम्र करीब 32 वर्ष
2. राजदीप चौहान उर्फ कल्लू पुत्र छोटाराजा चौहान निवासी बिरौली थाना पिछोर जनपद शिवपुरी म0प्र0 उम्र करीब 26 वर्ष
3. राजा बाबू चौहान पुत्र वृजभान सिंह चौहान निवासी देवगढ़ थाना पिछोर जनपद शिवपुरी म0प्र0 उम्र करीब 20 वर्ष को

एवं साथी बदमाश

4. के0पी0 सिंह चौहान पुत्र धीरज सिंह चौहान निवासी लिधौरा थाना चंदेरी जनपद अशोकनगर म0प्र0

घोषित इनाम-

गिरफ्तार घायल बदमाशों में से राजाबाबू चौहान एवं राजदीप चौहान उपरोक्त पर थाना भौती जनपद शिवपुरी से 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित है।

घायल तीनों बदमाशो संजी उर्फ संजीव चतुर्वेदी, राजदीप चौहान एवं राजाबाबू चौहान उपरोक्त पर थाना ईशागढ़ जनपद अशोकनगर म0प्र0 से 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित है।

इसके अतिरिक्त राजदीप, संजीव एवं राजा बाबू उपरोक्त पर जनपद झांसी से 25-25 हजार रुपये के इनाम घोषित हैं।